

Date: 31<sup>st</sup> December 2022

To,  
Chief Manager  
Listing Compliance Department  
National Stock Exchange of India Limited (NSE)  
Exchange Plaza, Plot no. C-1, Block-G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai -400 051

Scrip Symbol: WFL  
ISIN: INE02WG01016

To,  
BSE Limited  
Corporate Relation Department  
1st Floor, New Trading Ring  
Rotunga Building Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 543449

**Sub: Submission of Newspaper Clippings**

Dear Sir/Madam,

This is in continuation to our earlier intimation dated 15<sup>th</sup> December, 2022, wherein we have stated that the Company has been granted a fresh Certificate of Incorporation pursuant to change of name to "**Wonder Electricals Limited**".

We have also received approvals from both the Stock exchanges i.e., NSE & BSE Ltd. regarding the change in the name and symbol of the Company.

In this regard, the "Notice" of the Company was published in "Financial Express" newspapers (English) edition and Jansatta (Hindi) editions on 31<sup>st</sup> December, 2022. We are enclosing herewith the newspapers clippings.

The newspaper publications are also made available on our website at [www.wonderfibromats.com](http://www.wonderfibromats.com).

This is for your information and records.

Thanking You,

**For Wonder Electricals Limited**

**Kripank Kumar Singh**  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No. A59926

**Encl: A/a**

## FROM THE FRONT PAGE

## Centre's new year gift: Small savings rates hiked

LAST FISCAL, the Centre was forced to reverse swiftly a proposed cut in interest rates on small savings schemes, ostensibly not to upset middle-class voters amid Assembly polls in states like West Bengal and Assam. The Reserve Bank of India has already raised the repo rate by 225 basis points since May to 6.25% to tame inflation. This prompted banks to increase their deposit rates to woo investors. While retail inflation hit an 11-month low of 5.88% in November, having dropped to the comfortable limit of the central bank after a gap of 10 months, it still remains elevated. This will continue to influence interest rates. Of course, with the tightening of interest rates by key central banks and slowdown in global economic growth, inflation is expected to decelerate in the coming quarters.



## WONDER ELECTRICALS LIMITED

(Formerly known as Wonder Fibromats Limited)  
CIN: L31900DL2009PLC195174

Regd. Office: 45, Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020  
Email id:- info@wonderfibromats.com; Website:- www.wonderfibromats.com  
Contact No: 011-66058952

## NOTICE

## WONDER FIBROMATS LIMITED IS NOW WONDER ELECTRICALS LIMITED

This is to inform you that the name of the Company has been changed from "Wonder Fibromats Limited" to "Wonder Electricals Limited" with effect from 14<sup>th</sup> December 2022 as per fresh Certificate of Incorporation pursuant to change of name issued by Registrar of Companies, New Delhi.

The said name has been notified by the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India (NSE). Both the Stock Exchanges have noted the new name. The Stock Symbol of the Company with NSE shall also stand changed from "WFL" to "WEL" w.e.f. 04/01/2023.

The Change of the name of the Company as foresaid does not alter any legal status or constitution of the Company nor it effect any rights or obligations of the Company. The Fresh Certificate issued pursuant to name change is available on the website of the Company.

FOR WONDER ELECTRICALS LIMITED  
(Formerly known as Wonder Fibromats Limited)  
Sd/-

Place: New Delhi  
Date: 30.12.2022

Harsh Kumar Anand  
Chairman & Managing Director

## PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT AN OFFER DOCUMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

**RUSHIL**  
DECOR LIMITED

## RUSHIL DECOR LIMITED

Rushil Decor Limited ("Company" or "Issuer") was originally incorporated as 'Rushil Decor Private Limited' on May 24, 1993 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli ("RoC"). Pursuant to a special resolution of our Shareholders passed in an extra-ordinary general meeting dated November 19, 2007 our Company was converted into a public limited company and subsequently, the name of our Company was changed to 'Rushil Decor Limited' and a fresh certificate of incorporation dated December 04, 2007 consequent to the conversion was issued to our Company by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. The registered office of our Company was originally situated at A-701, Fair Deal House, Near Swastik Char Rasta, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India. Thereafter, the registered office of our Company was changed to 1, Krinkal Apartment, Opposite: Mahalaxmi Temple, Near Mahalaxmi Char Rasta, Paldi, Ahmedabad - 380 007, Gujarat, India on February 12, 1998 and subsequently to S. No. 125, Near Kalyanpura Patia, Gandhinagar - Mansa Road, Village Itla, Tal: Kalol, District: Gandhinagar - 382 845, Gujarat, India on August 20, 2007.

Registered Office: S. No. 125, Near Kalyanpura Patia, Gandhinagar Mansa Road, Kalol, Village Itla, Gandhinagar - 382 845, Gujarat, India. | Tel: +91 98 2543 8039

Corporate Office (Address where books of account and papers are maintained): Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off. Sindhu Bhavan Road,

Shilaj, Ahmedabad - 380 058, Gujarat, India | Tel: +91 79 6140 0400

Contact Person: Hasmukh Kanubhai Modi, Company Secretary and Compliance Officer,

E-mail: ipo@rushil.com | Website: www.rushil.com | Corporate Identification Number: L25209GJ1993PLC019532

PROMOTERS OF THE COMPANY: KRUPESH GHANSHYAMBHAI THAKKAR, KRUPA KRUPESH THAKKAR, M/S. RUSHIL INTERNATIONAL AND KRUPESH GHANSHYAMBHAI THAKKAR HUF

## NOTICE

ISSUE OF UPTO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 12,420 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [●] RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY [●] FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [●] (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS [●] TIMES THE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 229 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR Regulations"), to state that Rushil Decor Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to equity shareholders on rights basis and filed the DLOF dated December 29, 2022 with the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI") Mumbai Office through the SEBI Intermediary Portal at <https://siportal.sebi.gov.in>, in accordance with

## A POWER COMPANY LIMITED

31200UP1992PLC014506

## Bids for Procurement of Power with HPO benefit on basis with Greenshoe option

Power Company Limited having its registered office, Knowledge Park-IV, Greater Noida - 201301, India. The Company is proposing to issue 50 MW hydro power with HPO benefit with effect from 05.05.2023 to 30.09.2023 as per the Guidelines of the Ministry of Power dated 30.03.2016. Bid Document is available on the website of the Company.

Right to reject all or any of the Bids or cancel the Bids without assigning any reasons whatsoever and

at e-mail id [powertrading@noidapower.com](mailto:powertrading@noidapower.com)

Head (Power Purchase)

## A POWER COMPANY LIMITED

31200UP1992PLC014506

## Bids for Procurement of Power for Renewable Power on basis with Greenshoe option

Power Company Limited having its registered office, Knowledge Park-IV, Greater Noida - 201301, India. The Company is proposing to issue 50 MW non-solar renewable power with effect from 05.05.2023 to 30.09.2023 as per the Guidelines of the Ministry of Power dated 30.03.2016. Bid Document is available on the website of the Company.

Right to reject all or any of the Bids or cancel the Bids without assigning any reasons whatsoever and

at e-mail id [powertrading@noidapower.com](mailto:powertrading@noidapower.com)

Head (Power Purchase)

## Concepts Limited

(Formerly known as Paramone Concepts Limited)

Emerging Building, Chandivali Mumbai - 400072 |

Tel: +91 22 2612 1212 | Email: info@ekansheconcepts.com

Website: www.ekansheconcepts.com CIN No:- L74110MH1992PLC070070

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 and the provisions, if any, of the Act and Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), that are in-force, it is proposed to be passed by the Members of Concepts Limited ("Company") (Formerly known as Paramone Concepts Limited). The Company will be sending the Notice in which the members whose e-mail addresses are registered with the Company and pre-paid Business Reply Envelope will be used. The e-mail addresses are not registered with the Company for this Postal Ballot.

The meeting of the Members would take place at the registered office of the Company as well as through physical ballot form, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder.

